

केंद्र ने सोयाबीन खरीद की समयसीमा बढ़ाई

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना से [सोयाबीन](#) की खरीद की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय किया है।

मुख्य बिंदु

- सोयाबीन खरीद की समय सीमा बढ़ाई गई:
 - सभी राज्यों में सोयाबीन की कुल खरीद **13.68 लाख टन तक पहुँच गई है**, जबकि लक्ष्य 33.60 लाख टन का था।
 - मंत्रालय ने खरीद में कमी के लिये राज्य सरकारों को ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि खरीद व्यवस्था करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
- कृषि मुद्दों पर समीक्षा बैठक:
 - कृषि मंत्री ने [कृषि से संबंधित](#) प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
 - वषियों में कृषि उपज प्रबंधन, [कृषि उत्पादों](#) का वपिणन, आयात-नरियात गतिशीलता और [मौसम की स्थिति](#) शामिल थे।
 - उन्होंने कृषि चुनौतियों के समाधान के लिये राज्य कृषि मंत्रियों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करने पर ज़ोर दिया।

सोयाबीन की फसल

- सोयाबीन भारत में [खरीफ की फसल](#) है।
- सोयाबीन (गलाइसिनि मैक्स) विश्व की सबसे महत्वपूर्ण बीज फली है, जो वैश्विक खाद्य तेल में **25% का योगदान देती है**, पशुधन आहार के लिये विश्व प्रोटीन सांद्रण का लगभग दो तिहाई है तथा [मुरगी](#) और [मछली](#) के लिये तैयार आहार में एक मूल्यवान घटक है।
- यह मुख्य रूप से वर्टिसोल और संबद्ध मृदा में वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाया जाता है, जहाँ फसल के मौसम में औसत वर्षा 900 ममी. होती है।
- भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।